

KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1 BINNAGURI CANTT.

CLASS I ADMISSION UNDER OBC – NCL (OFFLINE MODE)

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR CLASS I ADMISSION ARE INVITED FOR VACANT SEATS UNDER OBC - NCL. LAST DATE FOR REGISTRATION 19TH JULY 2021 UPTO 01:00 PM. LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES WILL BE DISPLAYED ON 20TH JULY 2021 UPTO 02:00 PM. LIST WILL BE PREPARED AS PER THE KVS ADMISSION GUIDELINES. INTERESTED PARENT'S KINDLY APPLY AS PER THE INFORMATION GIVEN BELOW.

PARENT'S ABLE TO REACH SCHOOL PHYSICALLY:

- 1) COLLECT REGISTRATION FORM FROM SCHOOL.
- 2) SUBMIT THE FILLED FORM WITH ALL NECESSARY DOCUMENTS TO SCHOOL BEFORE LAST DATE IS OVER.

PARENT'S NOT ABLE TO REACH SCHOOL PHYSICALLY:

- 1) DOWNLOAD REGISTRATION FORM FROM SCHOOL WEBSITE GIVEN BELOW.
- 2) SEND FILLED FORM WITH ALL NECESSARY DOCUMENTS TO SCHOOL EMAIL ADDRESS GIVEN BELOW.

LIST OF DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH REGISTRATION FORM:

- 1) Date of Birth certificate (Photo copy).
- 2) Copy of service certificate mentioning no. of transfers in last seven years (FOR CAT I TO CAT IV).
- 3) Copy of caste certificate OBC - NON CREAMY LAYER
- 4) Copy of Address proof (lease deed, BPL CARD, APL CARD, RATION CARD etc).
- 5) Copy of AADHAR CARD (IF AVAILABLE)

SCHOOL WEBSITE ADDRESS : <https://no1binnaguricantt.kvs.ac.in>

SCHOOL EMAIL ADDRESS : admissionkv1bngr@gmail.com

- * FOR ANY QUERIES WRITE TO EMAIL ADDRESS GIVEN ABOVE.
- * FORM SENT TO ANY OTHER EMAIL ID WILL NOT BE ACCEPTED.
- * INCOMPLETE FORM(S) WILL NOT BE ACCEPTED.
- * THOSE WHO ALREADY APPLIED THROUGH ONLINE MODE NEED NOT TO APPLY AGAIN.

Note : All parents visiting school must follow covid – 19 protocol.



केन्द्रीय विद्यालय
Kendriya Vidyalaya
नं०१, बिन्नागुड़ी छावनी / No.1, Binnaguri Cantt.

PHOTO

क्रम संख्या / Si. No. वर्ष / Year : 20 - 20 REG. No.

पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for Class.....(Put tick mark in appropriate box)

प्रथम पाली / 1st Shift OR द्वितीय पाली / 2nd Shift

1. विद्यार्थी का पूरा नाम
Name of child in full (in Capital letters)..... Sex : M F

2. जन्म तिथि (अंकों में) Date of Birth

शब्दों में / In words.....

31.3.2020 तक आयु वर्ष मास दिन
Age as on 31.3.2020 Year Months Day

3. बच्चे का रक्त समूह Rh फेक्टर सहित
Blood Group of the child with Rh Factor

4. छात्र का श्रेणी / The Category to which child belong

सामान्य श्रेणी Gen. Cat	अनु० जाति SC	अनु० जनजाति ST	ओ०वी०सी० OBC	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS	विकलांग Disabled	बीपीएल BPL	इकलौती कन्या SG Child
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. क्या आप सामान्य श्रेणी/अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ बी सी से/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विकलांग/इकलौती कन्या यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
Do you belong to Gen/SC/ST/OBC/EWS/Disabled/S.G. Child? Yes No If yes, attach relevant certificate.....

6. माता पिता का ब्यौरा / Details of Mother / Father

माता / Mother	पिता / Father
(i) नाम / Name (in capital letters)
(ii) राष्ट्रियता / Nationality	(iii) व्यवसाय / Occupation
(iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address with telephone numbers
(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष Full residential address with telephone numbers (with proof)
(vi) विद्यालय से दूरी / Distance from KV*
(vii) स्थाई पता / Permanent Address
(viii) मूल वेतन / Basic Pay
(ix) प्रसंगाधीन वर्ष की 31.3.2020 की पिछले सात वर्षों में स्थानान्तरणों की संख्या No. of transfers during last 07 years on 31.3.2020 of the year.....
(x) श्रेणी रक्षा / केन्द्रीय कर्मी / स्वायत्तशासी व अन्य Category to which the parent belong to Defence / Central Govt. / Autonomous body & others
(xi) Employee Code <input type="text"/>

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं ।
I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता पिता के हस्ताक्षर/ Signature of Parent

तिथि /Date :

पूरा नाम/ Full Name.....

प्रमाणित किया जाता है कि

स्वर्गीय श्री/श्रीमती..... के पुत्र/पुत्री है जो.....

में सेवारत थे और उनका देहावसान सेवालकाल के दौरान दिनांक.....को हो गया था ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो.....के माता-पिता है,

उनके वर्तमान वर्ष की पहली अप्रैल से सात वर्षों के दौरान.....स्थानांतरण हुए है। एकक/कार्यालय और ऐसी तैनातियों की

अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसके कारण सीन बदलना पड़ता है ।

Certified that Master/Km..... is the son/daughter of late Sh./Smt.....

who was employed in the Office/Ministry/Defence service. He/She had died in harness on the

It is further certified that..... (particulars of son/daughter.....

has/had..... (No. of posting) transfers during the preceding last seven years from 30th Sept. of the current

year. The Unit Office & the duration of such postings involving change of station are given below.

क्रम संख्या Sl.No.	पदनाम Designation	स्थान Place of posting	ठहरने की अवधि Period of stay		आदेश संख्या Order No.
			से From	तक To	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

स्थान और तारीख
Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with

दूरभाष संख्या Telephone No.

टिप्पणी : रक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा प्रमाण पत्र पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं ।

Note : The Service Certificate should be signed by the Commanding Officer in case of employees working in defence establishment.

1. Smt./Shri (Name)
 (rank/designation)
 of (unit/ship/Deptt.), do hereby
 certify that during the past 7 years I have been transferred times (in
 figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under.

S.No.	Formation/ Unit/Depot/ Office	Whether moved with family	Place	Period		Total Period of stay	Authority of move
				From	To		

I further certify that in case the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission to Kendriya Vidyalaya.

PLACE :

DATE :

SIGNATURE OF PARENT

.....
(Counter signed by Commanding Officer / controlling officer of the rank of colonel or equivalent)

1. Smt./Shri rank/designation
 name.....

unit/ship/Department hereby certify that the particulars
 given in para 1 have been authenticated by the records held in the office and found to be correct.

PLACE :

DATE :

(SIGNATURE OF THE CO/OC UNIT / CONTROLLING OFFICER)
 (ADDRESS) WITH OFFICE SEAL

.....

सेवा प्रमाण पत्र /SERVICE CERTIFICATE
(Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... कार्यालय/मंत्रालय में कार्यरत हैं ।
वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था/
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध केन्द्रीय स्थानांतरणीय है ।

Certified that Shri/Smt..... is working in the
Office / Ministry of..... He/She is an employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/
SPG/CISF/ Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by
Central Govt. and his/her services are transferable any where in India.

स्थान और तारीख
Station with date
stamp

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with

दूरभाष संख्या Telephone No.

सेवा प्रमाण पत्र /SERVICE CERTIFICATE
(State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... कार्यालय/मंत्रालय में कार्यरत हैं ।
..... वह राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी है ।

Certified that Shri/Smt..... is working in the
Office / Ministry of..... He/She is an employee of State Government
transferable anywhere in the state.

स्थान और तारीख
Station with date
stamp

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with

दूरभाष संख्या Telephone No.

पावती /Acknowledgement

क्रम सं० S.No. 001

पंजीकरण संख्या /Registration No.....

श्री/श्रीमती.....से उनके पुत्र/पुत्री..... का कक्षा.....

में प्रवेश हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त किया ।

Received an application from Shri/Smt..... for registration of
her/his son/daughter..... for admission to class.....

तिथि /Date :.....

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय (मुद्रांक)Kendriya Vidyalaya (Stamp)

Note : 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants.

2. A self declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing on undertaking to this effect.